

01

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 27-11-2020

शिकायत लेकर आई महिलाओं को मास्क पहनाकर कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु जागरूक करती महिला आरक्षी

श्री रामअभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा नारी " शक्ति अभियान/कोविड- 19 के बचाव के सम्बन्ध में जागरूकता अभियान " के क्रम में व श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर व श्री उमेश शर्मा क्षेत्राधिकारी डुमरियागंज के पर्यवेक्षण में श्री रणधीर कुमार मिश्रा प्रभारी निरीक्षक थाना त्रिलोकपुर के निर्देशन में आज दिनांक 27-11-2020 को शिकायत लेकर आई महिलाओं को महिला हेल्प डेक्स पर नियुक्त म0आ0 सुजाता राव द्वारा मास्क पहनाकर कोविड-19 के संक्रमण के बचाव हेतु जागरूक किया गया तथा उनकी समस्याओं को सुनकर त्वरित निस्तारण की कार्यवाही की गयी। थाने पर शिकायत लेकर आयी महिलाओं द्वारा त्रिलोकपुर पुलिस की प्रशंसा किया गया।

02

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 27-11-2020

आज दिनांक 27.11.2020 को श्री राजेन्द्र बहादुर सिंह, प्रभारी निरीक्षक शोहरतगढ़ के नेतृत्व में उ.नि. श्री रमाशंकर मिश्र मय टीम द्वारा शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने हेतु ग्राम हड़हवा मे आपसी सौहार्द बिगाड़ने वाले 02 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी मे समय करीब 14.10 बजे गिरफ्तार कर अन्तर्गत धारा 151/107/116 सीआरपीसी मे माननीय न्यायालय / जेल भेजा गया।

03

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 27-11-2020

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक, जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा " अपराध की रोकथाम व अपराधियों के गिरफ्तारी हेतु" व यातायात माह के तहत चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत, श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक जनपद सिद्धार्थनगर व क्षेत्राधिकारी सदर श्री प्रदीप कुमार यादव के कुशल पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष कपिलवस्तु श्री महेश सिंह, के नेतृत्व में थाना स्थानीय के उ0नि0 गणों के साथ डग्गामार वाहनो व तीन सवारी वाहनो व कोरोना वायरस के रोकथाम हेतु दौरान चेकिंग दो पहिया वाहन पर बीना अनुमति के बैठने पर 02 व्यक्ति बीना मास्क लगाये पाये गये उक्त 02 व्यक्तियों द्वारा मौके पर 500 रुपया शमन शुल्क अदा करने के पश्चात उक्त व्यक्तियों को मौके पर ही रुकसत किया गया। वाहन चेकिंग के दौरान कुल 10 वाहनों से रुपया 17000/- का ई चालान किया गया।

चेकिंग टीम-

1-SO महेश सिंह थानाध्यक्ष कपिलवस्तु जनपद सिद्धार्थनगर।

2-का0 पवन सिंह कपिलवस्तु जनपद सिद्धार्थनगर।

3-का0 सुमित यादव कपिलवस्तु जनपद सिद्धार्थनगर।

04

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 27-11-2020

दहेज-हत्या का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए गए अभियान के अन्तर्गत श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर के पर्यवेक्षण व श्री राणा महेंद्र प्रताप सिंह, क्षेत्राधिकारी शोहरतगढ़ के निर्देशन में तहसीलदार सिंह, प्रभारी निरीक्षक डेबरूआ द्वारा उप निरीक्षक श्री शिवदास गौतम व हमराह पुलिस बल के सहयोग से मु.अ.संख्या: 303/2020 धारा 498A/304 B भादवि0 & 3/4 DP ACT थाना डेबरूआ सिद्धार्थनगर से सम्बंधित वांछित अभियुक्त धर्मराज उर्फ पुजारी पुत्र जगदेव निवासी तालकुंडा केवटलिया जनपद सिद्धार्थनगर को आज दिनांक 27.11.2020 को रात्रिकाल में उसके निवास स्थान से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को नियमानुसार चालान कर न्यायालय रवाना किया गया।

05

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 27.11.2020

अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर के निर्देशन एवं श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक के कुशल पर्यवेक्षण में चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत दिनांक 26-11-2020 को पुलिस द्वारा कृत कार्यवाही।

थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा अभियुक्तगण 01 - अनिल मौर्या पुत्र घिसियावन सा0-खोरिया थाना तौलिहवां जिला कपिलवस्तु राष्ट्र-नेपाल एवं 02 - मनोज मौर्या पुत्र नरेश सा0-खोरिया थाना तौलिहवां जिला कपिलवस्तु राष्ट्र-नेपाल के कब्जे से 02 अदद साइकिल व 04 बोरी यूरिया खाद बरामद कर 11 कस्टम अधिनियम के तहत आवश्यक कार्यवाही की गयी।

06

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 27.11.2020

आज दिनांक 27.11.2020 को थाना भवानीगंज पर छात्र सत्यदेव मौर्या पुत्र रामरोहित मौर्या निवासी ग्राम बयारा थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर आये। जिनका पर्स दिनांक 26.11.2020 को उत्तरौला जाते समय भड़रिया पुल के पास गिर गया था। का0 फूलदेव यादव को गस्त के दौरान उपरोक्त व्यक्ति का पर्स मिला, जिसमें उसका आधार कार्ड, ड्राइविंग लाईसेन्स, दो एटीएम कार्ड व 3500/-रुपया नगद था, का0 फूलदेव यादव द्वारा ईमानदारी का परिचय देते हुए प्राप्त पर्स की सूचना प्रभारी निरीक्षक को दिया गया। श्री रवींद्र कुमार सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना भवानीगंज द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से क्षेत्र के लोगो को सूचना दी गयी। जिससे छात्र सत्यदेव मौर्या उपरोक्त को पता चला तथा थाना पर आये। प्रभारी निरीक्षक द्वारा छात्र सत्यदेव मौर्या को पर्स ससम्मान लौटाया गया। सत्यदेव मौर्या पुत्र रामरोहित मौर्या निवासी बयारा थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा पुलिस के इस सराहनीय कार्य पर बहुत आभार व्यक्त किया।

07

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 27.11.2020

क्षेत्राधिकारी यातायात ने ढेबरुआ थाना क्षेत्र के तुलसियापुर में पहुँचकर किया निशुल्क हेलमेट वितरित।

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर द्वारा यातायात माह के दौरान चलाए गए यातायात सम्बन्धी अभियान के अन्तर्गत श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर के पर्यवेक्षण में श्री प्रदीप कुमार, क्षेत्राधिकारी यातायात/सदर ने आज दिनांक 27.11.2020 को थाना ढेबरुआ के तुलसियापुर पहुँचकर उन बाइक सवारों को जो हेलमेट नहीं धारण करते हुए वाहन चला रहे थे, उन्हें रोक कर हेलमेट पहनाया। बाइक चलाते समय स्वयं की सुरक्षा के लिए हेलमेट लगाना अनिवार्य है, इसलिए लापरवाही कर्त्तई न करें। ये बातें सीओ यातायात प्रदीप कुमार यादव ने ढेबरुआ थानाक्षेत्र के तुलसियापुर चौराहे पर हेलमेट वितरण कार्यक्रम में कही। उन्होंने कहा कि वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन करें, बाइक पर तीन सवारी बिल्कुल न चलें। इससे स्वयं के साथ ही परिवार को भी परेशानी से बचा सकते हैं। कार्यक्रम के दौरान ढेबरुआ पुलिस की तरफ से 55 बाइक चालकों को निशुल्क हेलमेट वितरण किया गया। इस मौके पर ढेबरुआ एसएचओ तहसीलदार सिंह, उप निरीक्षक शिवदास गौतम, हेड कांस्टेबल रविन्द्र सिंह, कॉन्स्टेबल महेंद्र कुमार, अनिल अग्रहरि, सुरेन्द्र चौहान, महेन्द्र यादव आदि मौजूद थे।

08

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 27.11.2020

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर द्वारा यातायात माह के दौरान चलाए जा रहे यातायात सम्बन्धी अभियान के अन्तर्गत श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर के पर्यवेक्षण में श्री प्रदीप कुमार, क्षेत्राधिकारी यातायात/सदर के निर्देशन में आज दिनांक 27.11.2020 को श्री अछयवरनाथ यादव, प्रभारी यातायात के द्वारा वाहन चालकों का यातायात नियमों से संबंधित जानकारी प्रदान की गई साथ ही साथ यातायात पुलिस द्वारा 33 वाहन से 36000 रुपया चालान किया गया एवं पूरे जनपद सिद्धार्थनगर में नागरिक पुलिस व यातायात पुलिस के द्वारा ₹316000 ई चालान किया गया।

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 27.11.2020

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक, जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा "अपराध की रोकथाम व अपराधियों के गिरफ्तारी हेतु" श्री मायाराम वर्मा अपर पुलिस अधीक्षक जनपद सिद्धार्थनगर व क्षेत्राधिकारी सदर श्री प्रदीप कुमार यादव के कुशल पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष कपिलवस्तु श्री महेश सिंह के नेतृत्व में थाना स्थानीय के उ०नि० विरेन्द्र कुमार कुंवर व उ०नि० कृष्ण प्रताप सिंह मय हे०का० धर्मेन्द्र यादव, का० सलीम अहमद द्वारा थाना स्थानीय पर दिनांक 25. 11. 2020 को हत्या का प्रयास करने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु०अ०सं० 133/2020 धारा 307,504,506 भादवि से सम्बन्धित 2 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार कर मा० न्यायालय के आदेश पर जेल भेजा गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीम

- 1-उ०नि० विरेन्द्र कुमार कुंवर (प्रभारी चौकी बजहा थाना कपिलवस्तु)
- 2-उ०नि० कृष्ण प्रताप सिंह
- 3-हे०का० धर्मेन्द्र यादव
- 4-का० सलीम अहमद

गिरफ्तार वांछित अभियुक्तों का विवरण-

- (1) शमशेर पुत्र हरिलाल लोध उम्र करीब 34 वर्ष
- (2) रमेश पुत्र हरिलाल लोध उम्र करीब 36 वर्ष निवासीगण चकईजोत टोला लोधपुरवा थाना कपिलवस्तु जनपद सिद्धार्थनगर

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 27.11.2020

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में "अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान" के अन्तर्गत श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर व श्री प्रदीप कुमार यादव क्षेत्राधिकारी, सदर के कुशल पर्यवेक्षण तथा श्री राधेश्याम राय प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली सिद्धार्थनगर, जनपद सिद्धार्थनगर के कुशल निर्देशन में थाना स्थानीय पुलिस टीम द्वारा कृत कार्यवाही---

थाना कोतवाली सिद्धार्थनगर, जनपद सिद्धार्थनगर पर पंजीकृत मु०अ०सं० 325/2020 धारा -363, 366 भा.द.वि. से संबंधित अभियुक्त आयुष आनन्द पुत्र अरुण सिंह निवासी ग्राम मानपुरा थाना बेलसर जिला बैशाली राज्य बिहार व अपहृता के बारे में आज दिनांक 27.11.2020 को मुखबीर की सूचना पर थाना कोतवाली सिद्धार्थनगर पुलिस टीम मय मुखबीर के तत्समय मौके पर पहुँची। मुखबीर द्वारा दूर से ईशारे से बताये गये लड़का व लड़की को नियमानुसार रोक कर नाम, पता, तस्दीक करने के उपरान्त अभियुक्त अभियुक्त आयुष आनन्द पुत्र अरुण सिंह निवासी ग्राम मानपुरा थाना बेलसर जिला बैशाली राज्य बिहार को गिरफ्तार व अपहृता की बरामदगी की गयी। उक्त के संबंध में अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम, पता

आयुष आनन्द पुत्र अरुण सिंह निवासी ग्राम मानपुरा थाना बेलसर जिला बैशाली राज्य बिहार।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण

- 1-उ०नि० श्री द्वारिका प्रसाद चौधरी थाना कोतवाली सिद्धार्थनगर, जनपद सिद्धार्थनगर।
- 2- का० दीपक अग्निहोत्री, थाना कोतवाली सिद्धार्थनगर, जनपद सिद्धार्थनगर।
- 3- का० धीरज यादव थाना कोतवाली सिद्धार्थनगर, जनपद सिद्धार्थनगर।
- 4- म०का० रेनु यादव थाना कोतवाली सिद्धार्थनगर, जनपद सिद्धार्थनगर।